

**METALLURGICAL ENGINEERING DEPARTMENT**

**धातुकर्म इंजीनियरिंग विभाग**

हमारे संदर्भ: एमटीडी 16/A-2.17

दिनांक 28-03-2018

**Subject: Reaffirmation of Indian Standards pertaining to Alloys Steel and Forgings Sectional Committee, MTD 16**

**विषय: भारतीय मानक की पुनः पुष्टि मिश्र धातुओं एवं गढ़ाइयों की विषय समिति, एमटीडी, 16**

The following Indian Standards have been reaffirmed during the month of March 2018 by the Alloys Steel & Forgings Sectional Committee, MTD 16 for a further period of five years from their due date:

निम्नलिखित भारतीय मानक मिश्र धातुओं एवं गढ़ाइयों की विषय समिति, एमटीडी, 16 अपने नियत तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए आगे के दौरान की पुष्टि मार्च 2018 में की गई है:

<i>Sl.No.</i>	<i>IS No.</i>	<i>Title</i>
1.	1570(Part 4):1988	Schedules for wrought steels Part 4 Alloy steels (Alloy constructional and spring steels) with specified chemical composition and mechanical properties
2.	1570(Part 5):1996	Part 6 Carbon and alloy tool steels
3.	1956(Part 6):1976	Glossary of terms relating to iron and steel Part 6 Forging (including drop forging)
4.	2004:1991	Carbon steel forgings for general engineering purposes
5.	2611:1984	Carbon chromium molybdenum steel forgings for high temperature services
6.	3261:1980	Carbon steel forgings for shipbuilding industry
7.	3469(Part 1 to 3):1974	Tolerances for closed die steel forgings
8.	3479:1966	General requirements for steel drop, upset and press forgings
9.	3739:1987	Dimensional tolerances for carbon and alloy constructional steel products
10.	3748:1990	Tool and die steels
11.	6528:1995	Stainless steel wire
12.	6529:1996	Stainless Steel Blooms, Billets And Slabs For Forging
13.	8748:1978	Forged/rolled CTC segments
14.	8811:1998	Method for Emission Spectrometric Analysis of Plain Carbon and Low Alloy Steels Point to Plane Technique
15.	9100:1979	Methods of sampling steel forgings
16.	9294:1979	Cold-Rolled Stainless Steel Strips for Razor Blades
17.	9683:1980	Carbon and low alloy steel forgings for fired and unfired pressure vessels
18.	9684:1980	Technical conditions for the supply of hot rolled billets blooms, slabs and bars for closed die forgings

19.	10604(Part 1):1983	Machining allowances and tolerances for open die steel forgings Part 1 carbon and low alloy steel forgings
20.	10604(Part 2):1983	Machining allowances and tolerances for open die steel forgings Part 2 High alloy steel forgings
21.	11946:1987	Soft Magnetic Iron Strips
22.	11947:1987	Soft Magnetic Iron Rods, Bars, Flats and Sections
23.	12045:1987	Alloys Used in Electrical Resistance Metallic Heating Elements
24.	12146:1987	Carbon Manganese Steel Forgings for Pressure Vessels
25.	12658:1989	Grinding Media Rolled/Forged Carbon and Carbon-Chromium Steels
26.	14331:1995	Steels For High Temperature Bolting Applications
27.	14652:1999	18 Percent Nickel Maraging Steel Bars and Rods
28.	14698:1999	Carbon and Low Alloy Steel Billets, Blooms, Slabs and Bars for Manufacture of Shell Bodies and Proof Shots Used in Defence Services
29.	15997:2012	Low Nickel Austenitic Stainless Steel Sheet and Strip for Utensils and Kitchen Appliances - Specification

Director (Sales)/DPT/D (PUB)/DLSC may kindly take suitable action for affixing the year of reaffirmation to these Indian Standards.

उपरोक्त भारतीय मानकों के साल की पुनः पुष्टि के लिए उचित कार्यवाही हेतु निदेशक (बिक्री) /डीपीटी/

डी (पीयूबी) /डीएलएससी को प्रेषित किया जा रहा है।

(एन. सुर्यनारायण) (N. Suryanarayana)

वैज्ञानिक 'ई' प्रमुख (धातुकर्म इंजी.) Scientist 'E' & Head (MTD)

**D (Sales)**

**DPT**

**D (PUB)**

**DLSC**

Copy to:

- i) All Regional Offices
- ii) All Branch Offices
- iii) All Inspection Offices
- iv) All Technical Departments in HQ
- v) All Labs
- vi) ITS Dept. - with the request to upload the information on BIS intranet

All by email